



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371]

No 371]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पौष 5, 1900

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paglug is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1978

सीमा शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1978

CUSTOMS

सां०का०नि० 591(अ) - केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणा में विनिर्दिष्ट और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 90 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो मोटर उद्योग में परीक्षण के प्रयोजन के लिए बनाया गया है जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्यानुसार शुल्क के 25 प्रतिशत से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
1.	निर्वातक उत्सर्जन, मापक उपस्कर।
2.	इंजिन विश्लेषक।
3.	ब्रेक कार्यक्षमता परीक्षक।
4.	पाँचवें पहिए।
5.	शोर एवं कंप मापक एवं विश्लेषक उपस्कर।
6.	पहियों के परीक्षण हेतु ऊर्ध्वाकार अतन्त्रलिप्त किस्म का यंत्र।
7.	पिस्टन और गजन पिनो के लिए श्रान्ति परीक्षण रिंग।
8.	ब्रेक सीक्वल परीक्षण रिंग।

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table below and falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and are designed for testing purposes in the automotive industry, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

TABLE

Sl. No.	Description
1.	Exhaust Emission measuring equipment.
2.	Engine Analyser.
3.	Brake performance tester.
4.	Fifth wheels.
5.	Noise and vibration measuring and analysing equipment.
6.	Vertical unbalanced type testing machine for wheels.
7.	Fatigue test rigs for pistons and gudgeon pins.
8.	Brake sequel test rigs.

[सं० 243 फा० सं० ए० 13/78 टी० आर० यू० (सी०)]

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

सां०कां०नि० 592(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 25 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि जोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 219 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"220 सं० 243-सीमा-शुल्क तारीख 26 दिसम्बर, 1978"।

[सं० 244/का०सं०एस 13/78 टी प्रार०यू० (सी०शु०)]

NOTIFICATION
CUSTOMS

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 25 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 219 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"220. No. 243-Customs, dated the 26th December, 1978."

[No. 244/F. No. S. 13/78-TRU(Cus.)]

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

सां०कां०नि० 593(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि जोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 172 सीमा-शुल्क तारीख 8 अगस्त, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (4) में सब (ii) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) फेर्राइट से बने पुर्जे।"

[सं० 245/का०सं० 346/26/78 टी० प्रार० यू०]

जोसेफ डोमिनिक, प्रवर सचिव

NOTIFICATION
CUSTOMS

G.S.R. 593(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 172-Customs, dated the 8th August, 1977, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 4, in column (4), after item (ii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"(iii) Parts made of ferrite."

[No. 245/F. No. 346/26/78-TRU]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1978/पौष 6, 1900

No. 372]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1978/PAUSA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 594 (अ):—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 8 के साथ पठित धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती) नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती) (द्वितीय संशोधन) नियम 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती) नियम, 1974 की अनुमूची में क्रम संख्या 27 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"28. कोटेमास्टर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200००	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है) (टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनमें भिन्न नो अण्डमान	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय में विधि में उपाधि या समतुल्य। (2) न्यायालय प्रक्रिया तथा पद्धति एवं न्यायालय में अभिलेखों तथा प्रदर्शों के रख-रखाव तथा सम्मन जारी करने से

1	2	3	4	5	6	7	-
					श्रीर तिकोबार द्वीप समूह श्रीर लक्षद्वीप में रहते हैं) प्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।	संबंधित कार्य का दो वर्षों का अनुभव। टिप्पण -1. अर्हतायें अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण : -2. अनुभव संबंधी अर्हतायें, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं, जबकि ज्वन के किसी प्रथम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि ऐसे आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समु- दायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।	
8	9	10	11	12	13		
लागू नहीं	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: स्थानान्तरण द्वारा, जिनके न होमकन पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: स्थानान्तरण: उच्च न्यायालय में सदृश पद भारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550-900 रु० के या सम- तुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है और जो सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये स्लैब 7 में अधिकारित अर्हतायें और अनुभव रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये) 1. सचिव, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग—अध्यक्ष। 2. उपसचिव, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग—सदस्य। 3. प्रभार सचिव (प्रशासन) कम्पनी कार्य विभाग—सदस्य। 4. उपयुक्त प्राप्ति का कोई अधिकारी जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का है (उस मामले में जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाए)। —सदस्य	चयन, संवाम तब जबकि केन्द्रीय सरकार से उच्चतम न्यायालय से कोई अधिकारी प्रति- नियुक्ति पर नियुक्त किया जा रहा हो, संघ लोक सेवा आयोग के पराकर्ष से किया जायेगा।		

[फा० सं० ए-12018/1/75-प्रशा-3 (भाग-3)]

एम० के० कुकरेजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1978

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by section 67 read with section 8 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Recruitment of Members of Staff) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Member Staff) Rules, 1974, after serial number 27, the following serial number and entries shall be inserted, anamely :—

1	2	3	4	5	6	7
"28. Court Master	1	General Central Services Group 'B' Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants) (Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Two year's experience of court practice and procedure and work relating to maintenance of records, exhibits in courts and issue of summons. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By transfer on deputation/transfer failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation/transfer ; Officers under the Central Government/Supreme Court/High Courts holding analogous posts or with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550—900 or equivalent and possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits in column 7 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of (for considering confirmation) : 1. Secretary, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission—Chairman 2. Deputy Secretary, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission—Member 3. Under Secretary (Administration), Department of Company affairs,—Member 4. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes of appropriate status (in case where candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes are being considered)—Member	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission except while appointing an officer from the Central Government/Supreme Court on deputation.	

[No. A 12018/1/75 Admn. I (Pt. III)]

M. K. KUKREJA, Jt. Secy.

